



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 06.10.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 01 शातिर अपराधी को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय ढुल के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा दिनांक 05/06.10.2020 को रात्रि गश्त के दौरान मुखविर की सूचना पर कस्बा मोहम्मदी मण्डी परिषद के पिछली दीवार के कोने से समय करीब 1.30 बजे 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए पकड़ा गया। जिसके कब्जे से कई निर्मित, अर्द्ध निर्मित शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम के उत्साहवर्द्धन हेतु 10,000/- ₹ का नकद पुरस्कार दिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 764/20 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना मोहम्मदी खीरी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

रिंकू पुत्र खुशीराम नि0 नयागांव नगर थाना पसगवां खीरी

अपराधी रिंकू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 862/10 धारा 420 भादवि0 थाना मैगलगंज
2. मु0अ0सं0 529/12 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मैगलगंज

3. मु0अ0सं0 328/13 धारा 302/147/148/149/120बी भादवि0 थाना मोहम्मदी
4. मु0अ0सं0 368/13 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मोहम्मदी
5. मु0अ0सं0 343/20 धारा 401 भादवि0 थाना पसगवां
6. मु0अ0सं0 350/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना पसगवां
7. मु0अ0सं0 764/20 धारा 3/5/25 आयुध अधि0 थाना मोहम्मदी

बरामद शस्त्र फैक्ट्री का विवरण-

1. 01 अदद बंदूक 12 बोर देशी
2. 01 बंदूक 315 बोर देशी
3. 02 अदद तमंचे 315 बोर
4. 07 तमंचे अर्द्ध निर्मित
5. 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
6. 01 अदद सीज मोटरसाइकिल होण्डा शाइन
7. शस्त्र बनाने के विभिन्न प्रकार के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्र0नि0 बृजेश कुमार त्रिपाठी
2. उ0नि0 जगपाल सिंह
3. का0 दिलीप कुमार
4. का0 देवेन्द्र यादव
5. का0 करन शर्मा
6. का0 रोहित यादव
7. का0 सतेन्द्र सिंह

## पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा चलाया गया रात्रि चेकिंग अभियान

जनपद खीरी में दिनांक 05.10.20 को पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय की अगुवाई में अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारीगण व जनपद के सभी थानों द्वारा सम्पूर्ण जनपद में समय 21.00 से 24.00 बजे तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें 53 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें 1710 वाहन चेक किए गए। 132 वाहनों का चालान किया गया, 07 वाहन सीज किए गए व 32900/- रू० शमन शुल्क बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त चेकिंग अभियान में 02 तमंचे .315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध चाकू, 226 ली० अवैध शराब बरामद की गयी। चेकिंग अभियान के दौरान कुल 22 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 13 व्यक्ति बिना मास्क लगाए पाए गए जिनसे 6500 रू० जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा बताया गया कि भविष्य में इस तरह के अभियान चलाकर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्यवाही की जाएगी।



## सम्पूर्ण समाधान दिवस



आज दिनांक 06.10.20 को सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा मंडी समिति लखीमपुर में उपस्थित रहकर जन शिकायतों की सुनवाई की गयी तथा मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।



थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



## प्रेस नोट

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद लखीमपुर द्वारा चलाये गये अवैध शस्त्र बरामदगी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 05/06-10-2020 को समय 01.20 बजे थाना हैदराबाद के उ0नि0 विनोद सिंह मय हमराह उ0नि0 महेन्द्र प्रताप यादव,का0 महावीर व हे0का0 रामचन्द्र शर्मा के द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान अभियुक्त नसीमुद्दीन पुत्र वसीरुद्दीन निवासी मूडा सरकटा थाना हैदराबाद जिला खीरी को हरिहरपुर नहर पुल से समय 01.20 बजे गिरफ्तार किया गया है अभि0 जसवीर उपरोक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हैदराबाद पर मु.अ.सं.325/2020 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

नसीमुद्दीन पुत्र वसीरुद्दीन निवासी मूडा सरकटा थाना हैदराबाद जिला खीरी

### अभियुक्त आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 53/2020 धारा 379/411 IPC थाना हैदराबाद खीरी

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 विनोद सिंह थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
2. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप यादव थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
3. हे0का0 रामचन्द्र शर्मा थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
4. का0 महावीर सिंह थाना हैदराबाद जनपद खीरी।

**थाना भीरा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस एवं अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त को  
किया गया गिरफ्तार**



**प्रेस विज्ञप्ति थाना भीरा जनपद खीरी**

**थाना भीरा की पुलिस द्वारा 01 अदद नजायज तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस व अवैध शराब बनाते हुए शराब बनाने के उपकरण मय 20 लीटर शराब अभि० 1.तीरथ पुत्र समस्वरूप निवासी चन्दपुरा थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया**

**घटना का विवरण**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा चलाये गये अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी महोदय गोला के पर्यवेक्षण में दि० 05.10.2020 को थाना भीरा के उ०नि० विनोद सिंह यादव मय फोर्स थाना भीरा देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जसयम ,तलाश वांछित -वारण्टी के दौरान ग्राम राधनपुरा चेकिंग में मे मामूर थे तभी जरिये मुखदिर खास सूचना के आधार पर चन्दपुरा के सामने झरदा नदी के किनारे से एक व्यक्ति को समय करीब 10.45 बजे रात्रि में अवैध शराब बनाते हुए व शराब बनाने के उपकरण मय 20 लीटर शराब तथा अभि० के पास से 01 अदद नजायज तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस आदि बरामद किये गये हैं गिरफ्तार अभि० के विरुद्ध नियमानुसार मु०अ०सं० 447/ 2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना भीरा जनपद खीरी व मु०अ०सं० 448/2020 धारा 60(2) आवकारी अधिनियम थाना भीरा जनपद खीरी पंजीकृत कर अभियुक्त को मा०न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया जा रहा है।

**नाम पता अभि०-**

1.तीरथ पुत्र समस्वरूप निवासी ग्राम चन्दपुरा थाना भीरा खीरी

**अपराधिक इतिहास -**

- 1.मु०अ०सं० 1499/ 2010 धारा 304,323,504 भा०द०वि० थाना भीरा जनपद खीरी
2. मु०अ०सं० 447/ 2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना भीरा जनपद खीरी
- 3.मु०अ०सं० 448/2020 धारा 60(2) आवकारी अधिनियम थाना भीरा जनपद खीरी

**बरामदगी-**

- 1.एक अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर
- 2.20 लीटर अवैध शराब एवं शराब बनाने का उपकरण

**पुलिस टीम:-**

- 1.उ० नि० श्री विनोद सिंह
- 2.डे० का० समरजीत सिंह
- 3.का० पवन कुमार वर्मा
4. का० ओम सिंह

**थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 500 ग्राम डोडा चूर्ण के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त मुनेश पुत्र गजोधर निवासी ग्राम सेमरांवा थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 25 वर्ष, को 500 ग्राम डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा० न्याया० भेजा गया है।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त रामसरन पुत्र राजाराम को अवैध तमंचे  
व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा दि० 05.10.20 को अभियुक्त रामसरन पुत्र राजाराम निवासी ग्राम जमुनिया सहबाज थाना मैगलगंज खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 05 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 514/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।



## थाना ईसानगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



### प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना ईसानगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.10/2020 को मु0अ0सं0 443/19 धारा 363/366/506/376(घ,क) भा0द0वि0 व 5जी/6 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित थाना ईसानगर में वांछित अभियुक्तगण 1. बुधराम पुत्र रमाशंकर 2. जितेन्द्र कुमार पुत्र कृपाशंकर निवासीगण ग्राम सिरसी थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. बुधराम पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम सिरसी थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र कृपाशंकर निवासी ग्राम सिरसी थाना ईसानगर जनपद खीरी
3. गिरफ्तार करने वाली टीम
  1. 30नि0 श्री देशराज सिंह
  2. हे0का0 राजेन्द्र पटेल
  3. का0 सुनील कुमार

## वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानो द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित वांछित/वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

1. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 479/20 धारा 366 भादवि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त राजा पुत्र सफीक निवासी मो0 बगिया कस्बा थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।
2. थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 75/20 धारा 363/366/323 भादवि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त रामू पुत्र त्रिपुगी निवासी पढुआ थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।
3. थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 418/20 धारा 363/376/342 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त भगवानी पुत्र शम्भू निवासी खुजईमुण्डा थाना धौरहरा को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।
4. थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 544/20 धारा 354 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त विशाल पुत्र राजेन्द्र निवासी सिंगहिया थाना पलिया खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।
5. थाना फूलबेहड के वारंटी अभियुक्तों 1. रामकिशोर पुत्र अशर्फीलाल निवासी सुन्दरवल थाना फूलबेहड खीरी 2. स्वामीदयाल पुत्र कन्हई 3. प्रमोद पुत्र रामलाल निवासी मौजमाबाद थाना फूलबेहड खीरी को गिरफ्तार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।

## अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **126 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 02 शराब भट्टी बरामद कर 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	थाना ईसानगर	50 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार
2	थाना फूलबेहड़	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना पलिया	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना सिंगाही	18 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मितोली	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मोहम्मदी	08 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	126 लीटर	13 अभियुक्त गिरफ्तार